

**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS

₹787/-

Important Current Affairs 14th August 2017 in Hindi with PDF

Here's the Hindi version of Important Current Affairs 14th August 2017. Now stay updates about important news and current affairs for SSC, IBPS and more bank & online government exams, in Hindi too! You can also download the Important Current Affairs 14th August 2017 in Hindi as PDF and save for revision!

Important Current Affairs 14th August 2017 in Hindi

1. हिन्द महासागर अभ्यास में शामिल होंगे भारत-चीन

- नवंबर में भारतीय नौसेना 'इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम' में पहले समुद्री खोज और बचाव अभियान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के साथ भाग लेगी।
- IONS, हिंद महासागर लिटोरल राज्यों का एक क्षेत्रीय मंच है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके नौसेना प्रमुखों द्वारा किया जाता है, इसे भारत ने फरवरी 2008 में लॉन्च किया था।
- इसे नवंबर 2017 में बांग्लादेश की अध्यक्षता में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा।

2. कॉमनवेल्थ बैंक के प्रमुख होंगे सेवानिवृत्त

- लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर कानूनों के कथित उल्लंघन के कारण नियामकों के दबाव के बीच, कॉमनवेल्थ बैंक के मुख्य कार्यकारी सेवानिवृत्त होंगे।





- AUSTRAC ने 53,000 बार से अधिक कानूनों के "गंभीर और प्रणालीगत गैर-अनुपालन" का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई शुरू करने के बाद उन्हें पद से हटने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा।
- नरेव, 2018 वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक छोड़ देंगे।

3. ललित मोदी का इस्तीफा

- ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अपने संबंध तोड़ते हुए नागौर जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
- BCCI द्वारा निष्काषित, IPL के पूर्व अध्यक्ष और आयुक्त, ने पहले पद छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण क्रिकेट बोर्ड को राज्य संघ निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- कथित वित्तीय उल्लंघनों के लिए, प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे मोदी लंदन में रह रहे हैं।

4. त्वरित रोगजनक पहचान के लिए DNA सेंसर

- एक ऐसे अल्ट्रासेन्सिव डीएनए सेंसर का विकास किया गया है जो लगभग 30 मिनट में बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला का कारण बनने वाले एक जीवाणु, एस. पयोजीस का पता लगा सकता है।
- जांच की पारंपरिक पद्धति 18-24 घंटे का समय लेती है और बेसिक कल्चर टेस्ट से एस. पयोजीस का पता लगाने में मदद नहीं करती है।

**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS

₹787/-

- सेंसर को CSIR-इंस्टिट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है।

5. नमो युवा रोजगार केंद्र

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'नमो युवा रोजगार केंद्र' की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुंबई में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस पहल के तहत, किसानों के साप्ताहिक बाजार, किसानों के मोबाइल बाजार और मदर्स टिफिन जैसी विभिन्न योजनाएं हैं, जहाँ मुम्बईकर ताजा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन और कृषि उत्पाद सीधे किसानों से खरीद सकेंगे।

6. अंग दान दिवस

- भारत हर वर्ष 13 अगस्त को मर्नोपांत अंग-दान करने की प्रतिज्ञा करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'अंग-दान' दिवस मनाता है।
- भारत में हर वर्ष 200,000 लोगों को एक नई किडनी और 100,000 लोगों को नए गुर्दे की आवश्यकता होती है, लेकिन नए अंगों की मांग की केवल 2 से 3% आपूर्ति हो पाती है।
- पहला अंग दान 1954 में किया गया था जब एक जीवित दाता ने अपने समान जुड़वा को गुर्दा दिया था।

7. स्विटोलिना को रोजर्स कप खिताब





- यूक्रेन की इलिना स्वेटोलीना ने शानदार प्रदर्शन के साथ सीधे सेट में कैरोलिन वोज़्नियाकी को हराकर रॉजर कप महिला एकल खिताब जीता।
- यह WTA टूर सीज़न का स्वेटोलीना का 5वां खिताब था। वे अब एक सीज़न में 3 प्रीमियर (दुबई, रोम और टोरंटो) 5 खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं।
- इस जीत के साथ वे विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुँच गयी हैं।

8. अंतरिक्ष में सुपर कंप्यूटर लांच करेगा स्पेसएक्स

- SpaceX, अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मानव रहित कार्गो जहाज को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें एक सुपर कंप्यूटर भी शामिल है जो अंतरिक्ष यात्री को गहन-अंतरिक्ष अभियानों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित कर सकता है।
- ड्रैगन कार्गो जहाज वाले फाल्कन 9 रॉकेट का लिफ्टऑफ़ फ्लोरिडा में होगा।
- यह नासा के साथ 1.6 अरब डॉलर का अनुबंध करने बाद कक्षा में रहने वाले अंतरिक्ष यानों की आपूर्ति 20 से अधिक ऐसी यात्राओं में करनी होगी।

9. SBI ने घटाई कर्मचारियों की संख्या

- SBI ने अपने वित्त वर्ष 18 की पहली तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में 6,622 की कटौती कर 2.80 लाख से 2.73 लाख कर दी है। ऐसा सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण हुआ है।

**SSC CGL 2017****COMBO PACK**

120 TOTAL TESTS

₹787/-

- बैंक, डिजिटलीकरण के कारण हुए अपने एसोसिएट बैंकों के विलय के बाद और 10,000 से अधिक कर्मचारियों को पुनःनियुक्त करने की योजना बना रहा है।
- इसका बड़ा कारण विलय है, क्योंकि बैंक एक सड़क पर कई शाखाओं से बचने के लिए शाखा नेटवर्क को जागृत कर रहा है।

10. इन्फ्युजन थेरेपी पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

- जलसेक चिकित्सा के वैश्विक प्राधिकरण, इन्फ्युजन नर्स सोसाइटी ने नर्सों के लिए इन्फ्युजन थेरेपी पर भारत का पहला ऑनलाइन कोर्स शुरू किया।
- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया में 3,000 से अधिक नर्सों को प्रशिक्षित करना है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच और आसानी का उपयोग कर के, पाठ्यक्रम सदस्यों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न जलसेक चिकित्सा मॉड्यूल और प्रस्तुतियों तक पहुंचने में सक्षम करेगा।

11. मराठा योद्धास ने जीती ने सुपर बॉक्सिंग लीग

- मराठा योद्धास ने सिरी फोर्ट स्क्वैश और बैडमिंटन स्टेडियम में सुपर बॉक्सिंग लीग के फाइनल में हरियाणा वारियर्स को 10-9 से हराकर, उद्घाटन संस्करण जीत लिया।
- मराठा योद्धास ने पहले दो मुकाबले, संदीप सिंह और एंडी चुऔआ के कारण जीते जिससे टीम को 6-0 की बढ़त मिली।





IBPS PO 2017

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

₹293/-



- आखिरी मुकाबला निर्णायक बन गया और संदीप छिकारा ने TKO के साथ योद्धास केव लिए जीत प्राप्त की।

12. जेडर्व ने फेडरर चौंकाया

- अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने मॉंट्रियल मास्टर्स फाइनल में सीधे सेट में रोजर फेडरर को हराकर पांचवां खिताब जीता लिया।
- ज़ेरेव ने 6 दिग्गजों को उतारकर, पहले सर्विस का 80% जीत कर 19-बार ग्रैंड स्लैम विजेता पर हावी हो गए।
- उन्होंने 'बूमिंग सर्व' का इस्तेमाल कर फाइनल में फेडरर को 6-3, 6-4 से हराया।
- वे इस सीजन में फेडरर के साथ टाईड होकर अबतक का सर्वाधिक, पांच खिताब जीता।

13. कोयंबटूर में 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री मोदी के 2017-2022 तक नए भारत के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कोयंबटूर में एक 'संकल्प से सिद्धि' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ महेश शर्मा उपस्थित थे।
- 'न्यू इंडिया मूवमेंट 2017-2022' में गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद और अन-स्वच्छता से मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है।

14. वित्त मंत्रालय ने दिए केंद्रीय कार्यालयों के लिए मानक



**SSC CGL 2017****COMBO PACK**

120 TOTAL TESTS

₹787/-

- वित्त मंत्रालय ने पूरे भारत के सभी केंद्र सरकार भवनों में ऊर्जा कुशल उपकरणों की अनिवार्य स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- LED आधारित लाइटिंग्स और ऊर्जा कुशल शीतलन उपकरण के उपयोग से ऊर्जा की खपत में कमी के जरिये दीर्घकालिक की बचत की जा सकेगी।
- EESL, 2020 तक लगभग 10,000 से अधिक सरकारी / निजी भवनों को शामिल करने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा रखता है।

15.IFFM में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला

- बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन, मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला अभिनेता बन गई हैं।
- 'मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव', मेलबोर्न आधारित एक वार्षिक भारतीय फिल्म समारोह है, जिसे फिल्म विक्टोरिया और विक्टोरिया की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- फिल्म समारोह में उन्हें 'वैश्विक सिनेमा उत्कृष्टता' पुरस्कार भी मिला।

16.UN ने सोमालिया को किया पोलियो मुक्त घोषित

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमालिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में सोमालिया में किसी भी प्रकार के पोलियो का मामला नहीं दर्ज किए गया है।
- WHO के अनुसार, 2014 में सोमालिया के मध्य भाग में पोलियो का अंतिम मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद से यह इस रोग से मुक्त रहा है।





- अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में अब भी पोलियो के मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

17. झारखंड ने किया धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित

- झारखण्ड विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 पारित किया है जिसका उद्देश्य राज्य में मजबूरन धर्मांतरण को रोकना है।
- विधेयक में 3 वर्ष की कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अगर अगर कोई व्यक्ति नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- स्वैच्छिक धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को डिप्टी कमिशनर को सूचित करना होगा।

18. पाकिस्तान ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

- पाकिस्तान ने अपने 70वें स्वतंत्रता दिवस को चिह्नित करने के लिए लाहौर के निकट अटारी-वाघा सीमा पर अपने इतिहास में सबसे बड़ा ध्वज फहराया।
- ध्वज, दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा और दुनिया में 8वां सर्वोच्च माना जा रहा है।
- पाकिस्तान, अविभाजित भारत के उत्तरी-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विभाजन से अलग मुस्लिम राज्य बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान आंदोलन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।

19. भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय

**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS

₹787/-

- उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 18 अगस्त को भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा।
- नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त निकाय के रूप में नियोजित किया गया है।
- इसका उद्देश्य विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- एयर वाइस मार्शल, नलिन टंडन को वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है।

20. मेराज खान-रश्मि राठोड को स्वर्ण

- कजाकिस्तान में सातवें एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में मिश्रित स्कीट टीम स्पर्धा में मेराज खान और रश्मि राठौर की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता।
- भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीनी जोड़ी लियू जियांगची और गाओ जियानमेई को 28-27 से हराया।
- भारत ने 8 पदकों के साथ चैंपियनशिप समाप्त की, अंकुर मित्तल ने पुरुष डबल ट्रान्सप इवेंट में एक व्यक्तिगत स्वर्ण और एक टीम स्वर्ण जीता।

Attempt Daily Important Current Affairs Quizzes for yesterday and today here:

[Attempt Current Affair Quiz for 14th August 2017](#)

[Attempt Current Affair Quiz for 13th August 2017](#)





IBPS PO 2017

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

₹293/-

